

मेहसाणा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, बहुचर माता जी के शक्ति पीठ से प्रख्यात यात्रा धाम, बेचराजी सेवाकेन्द्र द्वारा आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी की पावन उपस्थिति में भव्य त्रिवेणी संगम 1. बेचराजी सेवाकेंद्र का रजत जयंती महोत्सव, 2. शिवशक्ति भवन का उद्घाटन एवं 3. कुमारीयों के प्रभु समर्पण समारोह का आयोजन किया गया।

आदरणीय दादी जी, दिल्ली से पधारे ब्रह्माकुमारी आशा दीदी, मुंबई से पधारी ब्रह्माकुमारी गोदावरी दीदी, मेहसाणा के ब्रह्माकुमारी सरला बहन, भावनगर के ब्रह्माकुमारी तृप्ति बहन, एवं अन्य मेहमानों का बेचराजी सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्माकुमारी गीता बहन ने सेवाकेंद्र पर भव्य स्वागत किया। दादी जी के वरद हस्तों से तख्ती अनावरण कर, फिता काटकर एवं दीप जलाकर भवन का उद्घाटन किया गया। आदरणीय दादी जी एवं अन्य बहनों ने पूरे भवन का अवलोकन किया। तत्पश्चात समर्पण होने जा रही पांच-पांच कुमारीयों की शोभायात्रा बैण्ड बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से निकलती हुई भव्य सभामंडप पर पहुंची।

रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मधुबन से आए हुए ब्रह्माकुमार सतीश भाई एवं नितिन भाई ने अपने मधुर गीतों से सबको आनंदित कर दिया। कार्यक्रम से पूर्व भावनगर से पधारी ब्रह्माकुमारी तृप्ति बहन ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन से सब को लाभान्वित किया। मेहसाणा की ब्रह्माकुमारी सरला बहन ने शब्दों से सभी का स्वागत किया। दिल्ली से पधारी ब्रह्माकुमारी आशा दीदी ने अपना मुख्य वक्तव्य दिया।

इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में पधारे थे माननीय भ्राता भरत भाई ठाकोर, विधायक बेचराजी, माननीय भ्राता रजनी भाई पटेल, पूर्व गृह मंत्री, गुजरात राज्य, बेचराजी गांव के सरपंच, माननीय भ्राता देवांग भाई पंड्या। पटेल समाज के अग्रणी, भ्राता किरीट भाई पटेल तथा शांतिवन से पधारे ब्रह्माकुमार भुपाल भाई ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी ने अपने पावन वचनों से सभी को आशीर्वाद दिया। पूरे कार्यक्रम का अध्यक्षीय स्थान संभाला था मुलुन्द, मुंबई से पधारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी गोदावरी बहन ने। अंत में मंचासीन सभी मेहमानों को ताज, तिलक, चुन्नी, हार से सजाकर दीप प्रागट्य किया गया एवं केक भी काटी गई। दादि जी के पावन एवम वरदानी हस्तों से पांचो कुमारीयों को प्रभु अर्पित किया गया। पूरे कार्यक्रम की झलकियां तसवीरों के रूप में इसके साथ संलग्न हैं।

ईश्वरीय सेवा में

ब्रह्मकुमारी गीता बहन

संचालिका, बेचराजी



BK SARLA

CHAIR PERSON

Rural Development Wing

Rajyoga Education & Research Foundation

Address

Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya
"Peace Palace", Jail Road,

MEHSANA 384002